



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 153] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1983/चैत्र 9, 1905  
No. 153] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1983/CHAITRA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(प्राथमिक कार्य विभाग)  
(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली 28 मार्च, 1983

का०प्र० 247(प्र).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इलाहाबाद बैंक के अनुरोध पर 30 मार्च, 1983 से उत्तर प्रदेश राज्य में विन्ध्यावासिनी ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ० 1(18)/82-आर०आर०बी०(I)]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)  
(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 28th March, 1983

S.O. 247(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act,

1525 GI/82

(I)

1976 (21 of 1976), the Central Government on being requested so to do by Allahabad Bank establishes, with effect from the 30th March, 1983 a Regional Rural Bank in the State of Uttar Pradesh under the name of Vindhyavasini Gramin Bank which shall operate within the local limits of the district of Mirzapur in the State of Uttar Pradesh.

[No. F. 1(18)/82-RRB(I)]

का०प्र० 248(प्र).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा विन्ध्यावासिनी ग्रामीण बैंक के प्रायोजक इलाहाबाद बैंक से परामर्श करके, मिर्जापुर को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर विन्ध्यावासिनी ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ० 1(18)/82-आर०आर०बी०(II)]

S.O. 248(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Bank Act, 1976 (21 of 1976) of the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Allahabad Bank by which Vindhyavasini Gramin Bank has been sponsored specified Mirzapur as the place where Vindhyavasini Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1(18)/82-RRB(II)]

**का०आ० 249(अ).—**भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रिय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिये, विंध्यावासिनी ग्रामीण बैंक, मिर्जापुर को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (i) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप अधिसूचित करता है।

[संख्या एफ० 1(18)/82-आर० आर० बी० (III)]

बी०के० दोक्षित, संयुक्त सचिव

**S.O. 249(E).—**In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Vindhya-vasini Gramin Bank, Mirzapur being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1(18)/82-RRB(III)]

V. K. DIXIT, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

ई दिल्ली 28 मार्च, 1983

**का०आ० 250(अ).—**प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री शैलेंद्र कुमार सिन्हा को विंध्यावासिनी ग्रामीण बैंक, मिर्जापुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 30 मार्च, 1983 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान शैलेंद्र कुमार सिन्हा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 1(18)/82-आर० आर० बी० (IV)]

राम बेहरा, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 1983

**S.O. 250(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act,

1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri Sailendra Kumar Sinha as the Chairman of the Vindhya-vasini Gramin Bank, Mirzapur and specifies the period commencing on the 30-3-1983 and ending with 31st March, 1986 as the period for which the said Shri Sailendra Kumar Sinha shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1(18)/82-RRB(IV)]

RAAM BEHRA, Under Secy.

**भारतीय रिजर्व बैंक**

**ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष बम्बई**

**अधिसूचना**

बम्बई, 30 मार्च, 1983

**का०आ० 251(अ).—**भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात्:—

“विंध्यावासिनी ग्रामीण बैंक, मिर्जापुर (उ०प्र०)”

[आर०पी०सी०डी० संख्या 260/आई०एन०सी०एल०/311-83]

एच०बी० शिवमग्गी, कार्यपालक निदेशक

**RESERVE BANK OF INDIA**

**RURAL PLANNING AND CREDIT DEPARTMENT  
BOMBAY**

**NOTIFICATIONS**

Bombay, the 30th March, 1983

**S.O. 251(E).—**In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the second Schedule to the said Act of the following bank, namely :

“Vindhya-vasini Gramin Bank, Mirzapur (U.P.).”

[RPCD. No. 260/INCL/311-83]

H. B. SHIVAMAGGI, Executive Director,